

प्रेषक,

उमाकान्त जिन्दल,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय संख्या—20, आगरा।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा—

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,  
आगरा।

विषयः—

पासपोर्ट बनवाये जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध  
में।

महोदय,

विनम्रतापूर्वक निवेदन करना है कि मुझे निजी अथवा शासकीय कार्य से  
विदेश जाना पड़ सकता है। अतः मुझे अपना पासपोर्ट बनवाये जाने की आवश्यकता  
है। इस सम्बन्ध में सादर अवगत करना चाहता हूँ कि—

1. मेरे विदेश जाने में भारत सरकार या राज्य सरकार को कभी भी किसी विषम  
परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा।
2. मेरे द्वारा पूर्व में पासपोर्ट बनाये जाने के लिए कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया है।
3. मेरा पासपोर्ट बनाये जाने का कोई प्रार्थनापत्र पूर्व में निरस्त नहीं हुआ है।
4. पूर्व में मैं कभी विदेश नहीं गया हूँ।
5. मेरे परिवार के निम्न सदस्य हैं।

ए— डा० रीमा बंसल (पत्नी) उम्र 43 वर्ष (पत्नी)

बी— कु० शताक्षी जिन्दल (पुत्री) उम्र 9 वर्ष

सी— कु० नव्या जिन्दल (पुत्री) उम्र 4 वर्ष

अतः सादर निवेदन है कि मुझे पासपोर्ट बनवाये जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण  
पत्र जारी करने की कृपा करें।

सादर सहित।

दिनांक—22.07.2020

भवदीय,

(उमाकान्त जिन्दल)  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय संख्या—20, आगरा।